



HB PORTFOLIO LIMITED

Regd. Office : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector - 32, Gurugram -122001 (Haryana)
Ph.:0124-4675500, Fax:0124-4370985, E-mail:corporate@hbportfolio.com
Website : www.hbportfolio.com, CIN : L67120HR1994PLC034148

October 30, 2021

Listing Centre

The Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400001

Company Code: 532333

Sub: - Newspaper Advertisement for loss of share certificate

Dear Sir / Madam,

Please find enclosed herewith the copy of the advertisement(s) in respect of notice of loss of share certificate(s) published in **Business Standard (English & Hindi Edition)** on **Saturday, 30th October, 2021**.

The copies of the said advertisements are also available on the website of the Company, www.hbportfolio.com

You are requested to take the above information on record and oblige.

Thanking you,

Yours truly,

For HB Portfolio Limited

Ajay Kumar Mohanty
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As Above

Stress test for the coal economy

The mechanics of production and supply logistics suggest that power producers will struggle in the coming year too



SUBHOMOY BHATTACHARJEE
New Delhi, 29 October

Days before the COP26 negotiations get underway in Glasgow, it is ironic that India is rushing to raise coal production, which has become vital for maintaining the momentum of economic recovery. India needs more coal than it did in FY21 and international prices are steep. To meet the gap, domestic coal is sought to be used more intensively.

This, however, does not mean India is rapidly cutting down forests to open up more mines. Instead, the coal economy — including the coal and power ministries and the government-run coal companies — is being forced into a sort of stress test to meet the demand of the 138-odd power stations without the outages that marked the past few months.

The problem is this. Coal production has risen but the productivity of mining coal and its utilisation by downstream users have not improved. Coal India Ltd (CIL), the monopoly government producer, has produced 249.82 mil-

as state-owned NTPC is to locate their power plants next to the coal sidings. As the current crisis shows, this strategy has paid off. Coal ministry data shows of the 13 plants all over India surviving on less than three days of coal stock through most of October, eight were those farthest from the mines.

Since the demand for electricity has jumped by about 20 per cent (April to September) over the same period in FY21 in the monsoon months, coal stocks have been run down to keep the power plants running despite the waterlogged conditions in the sidings. To add to the pressure, the power ministry issued orders in September mandating that power plants running on imported coal should revert to domestic demand because international prices were rising steeply. This impacted coastal power plants such as the Tata and the Adani

Coal production has risen but the productivity of mining coal and its utilisation by downstream users have not improved

power plants at Mundra and created a technical problem as well since the boilers of imported coal-dependent power plants are configured to run on high-quality imported

sector that has a clear view of the demand and supply equations. The Central Electricity Authority had estimated India's gross domestic product to grow a conservative eight per cent real rate in FY22. The derived growth in electricity demand was expected to be about 7.2 per cent for the year. This was supposed to translate into an expected CIL production of 620 MT. The projections were made in November last year. These projections were revised as late as September for this year requiring CIL and SCCL to produce 670 MT.

Since the productivity of either has not risen as data shows, there is no particular reason to believe the gap between the demand and supply of coal will disappear soon.

The problems have been compounded by the Indian Railways. To ensure optimum coal utilisation, the organisation had begun a rationalisation of its freight routes jointly with the coal ministry (since 2013). The aim was that coal from the sidings should not move more than 500 km to reach a plant, a move that also helped the power companies as the freight rates for coal hauled beyond 700 km are steep. But railway ministry figures of the average lead dis-

NEWSMAKER / SANJIV GOENKA / CHAIRMAN

Kolkata's Big IPL creation

ISHITA AVAN DUTT
New Delhi, 29 October

Sanjiv Goenka has a knack for grabbing eyeballs. That he wanted to make a comeback to the glamorous world of the Indian Premier League (IPL) after a short stint of ownership with the Rising Pune Super Giants in 2016 and 2017 that the outfit is likely to be capped at a maximum of ₹300 crore a year (the franchise expects to receive around ₹400 crore from various BCCI rights). The outflow might even come down after the first six years depending on media rights.

The investment will be bankrolled by unlisted and private entities backed by the personal wealth of Sanjiv Goenka and partly by listed company RPSG Ventures, a holding company for new businesses (the Pune franchise was owned by New Rising, a subsidiary of power

company CESC).

"It's not a big deal," say those who know him and point to the size of the group to underscore the point.

As on March 31, 2021, the RP-Sanjiv Goenka group had revenues of ₹26,634 crore, EBITDA of ₹5,382 crore and gross assets of ₹47,400 crore (according to the website). His group of companies under the aegis of RPG Enterprises while a new entity for the Sanjiv Goenka-controlled companies emerged on July 13, 2011.

The legacy businesses of the RPSG group had included power generation and the distribution company, CESC, carbon black company Phillips Carbon Black, retail under Spencer's, and entertainment firm Saregama. The assets of plantation company Harrison's Malayalam were vertically split and put under two separate managements.



HB PORTFOLIO LIMITED

CIN : L67120HR1994PLC034148

Regd. Off. : Plot No. 31, Echelon Institutional Area, Sector 32, Gurugram-122001, Haryana

Ph. : + 91-124-4675500,

Fax No. : + 91-124-4370985

E-mail : corporate@hbportfolio.com,

Website : www.hbportfolio.com

NOTICE

Notice is hereby given that Mrs. Kusum Lata Garg, Shareholder of the Company has requested for issuance of Duplicate Share Certificate for 32 Equity Shares of Rs. 10/- each in lieu of lost/misplaced Original Share Certificate No. 317024 having Distinctive Nos. 29480536 to 29480567.

The Company shall proceed to issue Duplicate Share Certificate in favour of the above named Shareholder, if no objection is received within 15 days from date of publication of this Notice.

For HB Portfolio Limited
Sd/-

AJAY KUMAR MOHANTY
(Company Secretary)
Date : 29.10.2021
Place : Gurugram
M. No. : FCS-7133

APOLLO TYRES

Apollo Tyre

EXTRACT OF UNAUDITED AND HALF YEAR END

S No	PARTICULARS
1	Total income from op
2	Net profit / (loss) for t exceptional items)



वसुली अधिकारी- II का कार्यालय
ऋण वसुली न्यायाधिकरण - III, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

बिक्री
उद्घोषणा
सूचना

आर.सी. सं. 405/2017 दिनांकित : 21.10.2021

आईडीबीआई बैंक बनाम मैसर्स श्री बांके बिहारी टॉयज एवं दिना

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसुली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52 (2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

सीडी सं. 1 : मैसर्स श्री बांके बिहारी टॉयज, एक प्रोप. कम्पनी जिसका कार्यालय/दुकान का पता : दुकान नंबर 5443, न्यू मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-110006 है।
सीडी सं. 2 : श्री जगमोहन मित्तल, पुत्र स्व. श्री उमराव गुप्ता, प्रोप. मैसर्स श्री बांके बिहारी टॉयज, निवासी मकान नंबर 4193, गली बर्ना, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली-110006, अन्य पता : दुकान नंबर 5443, न्यू मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली-110006
सीडी सं. 3 : श्री अनूप गुप्ता, पुत्र श्री प्रमेशकर, गुप्ता, प्रोप. मैसर्स श्री बांके बिहारी टॉयज, निवासी मकान नंबर 4195, गली बर्ना, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली-110006.

जबकि आप पीठ अधिकारी, ऋण वसुली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली द्वारा पारित ओ.ए. सं. 475/2014 में आहरित वसुली प्रमाणपत्र के अनुसार आपके द्वारा देय रु. 1,30,19,711/- (रु. एक करोड़ तीस लाख चत्तसी हजार सात सौ ग्यारह मात्र) की राशि प्रमाणपत्र के अनुसार इस ओ.ए. के दाखिल करने की तिथि अर्थात् 20.05.2014 से लागत, खर्चों तथा आगे के 12 प्रतिशत वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज सहित चुकाने में असफल रहे हैं।

2. और जबकि अग्रोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र के समाधान में नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करने का आदेश दिया है।

3. एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कोई स्वयं आदेश नहीं होने की स्थिति में, उक्त सम्पत्ति 08.12.2021 को अप. 3.00 बजे से अप. 4.00 बजे के बीच (समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में कोई बोली आने की स्थिति में स्वतः विस्तार क्लॉज सहित, यदि अपेक्षित है) ई-नीलामी द्वारा बेची जाएगी तथा बोलीदान सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेकनॉलॉजीज लिमिटेड (एबीसी प्रोक्वोर), ए-201/208, बॉल स्ट्रीट-11, औरियंट ब्लक के सामने, गुजरात कालेज के निकट, एलिस बिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) फोन : +91 07961200594/598/568/587/538 के माध्यम से वेबसाइट-<http://www.drtauctiontiger.net> के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान माध्यम से होगा।

4. यदि नीलामी से संबंधित कोई प्रश्नाच्छ हो तो श्री राम शर्मा मोबाइल नंबर 8000023297, ई-मेल-delhi@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से सम्पर्क करें।

5. अतिरिक्त जानकारी के लिए श्री वेद वद्दा, सीएच बैंक के एजीएफ, मोबाइल नं. 9818978762 और श्री संजीव कुमार सिरसिया, डीजीएफ, मोबाइल नं. 9781332901, कार्यालय लैंडलाइन नंबर 011-66083101-08, ईमेल-sanjeevkumar@idbi.co.in से सम्पर्क करें। इच्छुक बोलीदाता EMD जमा करने से पहले संपत्ति के निरीक्षण के पूर्ण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त नामक प्रतिवादी की जिस सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी, उसका वर्णन नीचे अनुसूची में किया गया है तथा उक्त सम्पत्ति की देयताओं तथा जबकी दावों, जिनका अभी तक अभिनिश्चयन किया गया है, अनुसूची में प्रत्येक लॉट के सामने वर्णित अनुसार है।

बिक्री से संबंधित कोई बसुली करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा अन्य व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति के लिए बोली नहीं लगाएगा, बेची गई सम्पत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा अथवा अर्जित करने का प्रयास नहीं करेगा। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित शर्तों और उनके तहत बनाए गए नियमों तथा आगे निम्नलिखित शर्तों के तहत होगी।

संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण अग्रोहस्ताक्षरी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं, परंतु अग्रोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, असत्यकथन या विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

- सम्पत्तियों का वर्णन, सुरक्षित मूल्य और ईएमडी निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	सम्पत्ति विवरण	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी
1.	मकान नंबर 4193, गली बर्ना, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली-110006	रु. 27,00,000/- ईएमडी : रु. 2,70,000/-
2.	मकान नंबर 4195, नू तल, गली बर्ना, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली-110006	रु. 10,00,000/- ईएमडी : रु. 1,00,000/-

सम्पत्तियां सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

- बोलिया बड़ा जाने वाली राशि रु. 50,000/- (रु. पचास हजार मात्र) होगी। बोली राशि अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में संपत्ति की नीलामी दोबारा की जाएगी।
- उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार/स्वीकार करना अग्रोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार होगा, यदि पेश की गई कीमत उसको स्वीकार किए जाने हेतु स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है।
- ईएमडी वसुली अधिकारी-III, ऋण वसुली न्यायाधिकरण-III, दिल्ली के पक्ष में डीडी/पे आर्डर के रूप में वसुली अधिकारी-III, डीआरटी-III, दिल्ली के पास 08.12.2021 तक जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमडी ई-नीलामी में मांग लेने हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।
- पैन कार्ड, पता प्रमाण तथा पहचान प्रमाण की प्रति, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा घोषणा चाहिए यदि वे अपनी स्वयं की ओर से बोली दे रहे हैं। उत्तरदाताओं को उक्त प्राधिकरण प्रस्तुत करना होगा तथा चुक करने पर उनकी बोली रद्द कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कोई अन्य दस्तावेज, जो कम्पनी के प्रतिनिधित्व/अर्थात् की पुष्टि करता हो, जमा करना होगा और ऐसी जमा की रसीद/प्रतिपत्तिका उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक को ई-मेल द्वारा या अन्य प्रकार से उक्त तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए और उसकी हार्ड कॉपी वसुली अधिकारी-III, डीआरटी-III, नई दिल्ली को प्रस्तुत की जाएगी।
- सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली की 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात् अप. 03.00 बजे तक उक्त खाते में ऊपर पैरा में वर्णित विवरण के अनुसार जमा करनी होगी।
- क्रेता को अंतिम बोली की राशि 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 दिनों को अथवा पहले जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तब 16वां दिन के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित तिथि से जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रु. 1,000/- तक 2 प्रतिशत की दर से तथा रु. 1,000/- से अधिक पर 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना शुल्क भी रजिस्ट्रार, डीआरटी-III, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में वसुली अधिकारी-III, डीआरटी-III, दिल्ली के पास जमा करना होगा।
- संभावित बोलीदाता सम्पत्ति का निरीक्षण 01.12.2021 को पूर्व, 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक कर सकते हैं।
- निर्धारित अवधि में भुगतान में वृद्ध की स्थिति में, बिक्री की नई उद्घोषणा के जारी होने के बाद, संपत्ति दुबारा बेची जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अग्रोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर दी जाएगी और बाद में बेची जाने वाली सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश के संबंध में वृद्धकाल क्रेता के समी दावे जब्त मान्य होंगे।
- सम्पत्ति की बिक्री 'जैसा है जैसा है' तथा जो ई जैसा है आधार' पर की जा रही है।
- अग्रोहस्ताक्षरी के पास अनुपयुक्त नहीं जाने पर किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए किसी भी या समी बोलियों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने अथवा नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- सम्पत्तियों के संबंध में राजस्व/ऋणभार अथवा दावे का कोई विवरण इस समय अग्रोहस्ताक्षरी की जानकारी में नहीं है। तथापि, संभावित बोलीदाताओं को सूचना दी जाती है कि वे अपने स्वयं के हित में, ईएमडी जमा करने से पहले, बिजली/पानी/भवन कर विलों अथवा किसी अन्य ऋणभार इत्यादि के बकायों के संबंध में अपनी ओर से सतर्कता के साथ जांच कर लें।
- सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह यहां दिए गए विवरणों की प्रमाणिकता तथा सत्यता की जांच करे।

हस्ता/-
(उत्तम नैगी)

मैरे हस्ताक्षर तथा मोहर के साथ आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को दिया गया। वसुली अधिकारी-1, डीआरटी-III, अतिरिक्त प्रभार

NOTICE

MR RAMAN & Ranjan Arora, D1-148/149 second hind Floor, Sec16 Rohini, Delhi. Original documents of this property have been lost. An F.I.R. to this effect has been lodged in Police Station Vide NCR No. 830238/2021, dated 16/10/2021 at Crime Branch Delhi. Any Person claiming any right, interest, having any objection or found in possession of original documents may write/contact with the above named person at said address/ Mobile No 09958573622 within 30 days from the publication of this notice.

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा जन साधारण को सूचना दी जाती है कि सुविधा को ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पता 181, सुविधा अपार्टमेंट्स, प्लॉट नं. जीएच-10, सेक्टर 56, गुरुग्राम 122011 के एक सदस्य श्री फिलिप जैम्स के मूल शेयर सर्टिफिकेट नं. 032, सदस्यता सं. 75 गुण/खो चुका है। सोसाइटी के सदस्य ने डुब्लिकेट शेयर के लिए आवेदन दाखिल किया है।

सोसाइटी एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 (चौदह) दिनों की अवधि के अंदर डुब्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी किए जाने के लिए आवेदनों/आपत्तिकाओं अथवा आपत्तिकाओं से दावा तथा आपत्तियां आमंत्रित की जाती है। आपत्ति अथवा दावे के साथ डुब्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ अपने दावे/आपत्तियों के समर्थन में संबंधित कागजात तथा दावे के साक्ष के साथ सुविधा को ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सचिव के पास आवेदन जमा करना होगा। ऊपर उल्लेखित निर्धारित अवधि के अंदर अगर कोई दावा अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होता है, तो सोसाइटी के नियमों के अनुसार डुब्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सोसाइटी मुक्त होगी। सोसाइटी को अगर कोई दावा/आपत्तियां प्राप्त होती हैं, तो सोसाइटी के नियमों के अनुसार उसका समाधान निकाला जाएगा।

सुविधा को ऑपरेटिव
ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए तथा
उनकी ओर से
तारीख: 28.10.2021
स्थान: गुरुग्राम हस्ता/-
(माननीय सचिव)

HB

एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड

CIN : L67120HR1994PLC034148

पंजी. कार्या. : प्लॉट नं. 31, एशालॉन इन्स्ट्रुमेंट्स एरिया, सेक्टर-32, गुरुग्राम-122001, हरियाणा

फोन : +91-124-4675500,
फैक्स नं. : +91-124-4370985

ई-मेल : corporate@hbportfolio.com,
वेबसाइट : www.hbportfolio.com

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की शेयरधारक श्रीमति कुसुम लता गर्ग ने अनुरोध किया है कि मूल शेयर प्रमाणपत्र सं. 317024 शिशिप्ट सं. 29480536 से 29480567 जो कि खो गए/गुम हो गए उनके स्थान पर रु. 10/- प्रत्येक के 32 इक्विटी शेयरों हेतु डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाए।

यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो कम्पनी उपरोक्त नामक शेयरधारक के पक्ष में डुब्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने हेतु कार्यवाही करेगी।

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड
हस्ता./-
तिथि : 29.10.2021 अजय कुमार महाप्ति
(कम्पनी सचिव)
स्थान : गुरुग्राम M. No.: FCS-7133



होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड

सीआईएन: U65990MH2010PTC240703,
वेबसाइट: homefirstindia.com फोन नं.: 180030008425
ई-मेल आईडी: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना

संदर्भ: प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आरितियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम नं. 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे दी संबंधित तारीखों को जारी मांग सूचना के अनुसरण में अधोलिखित आप/कर्जदारों को संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर बकाया देयों का भुगतान करने के लिए कहा। आप/सभी कर्जदार, हालांकि, निर्धारित समय अवधि में उक्त बकाया देयों को भुगतान करने में असफल रहे, इसलिए, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा(4) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त अधिकार रखते हुए और प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा ले लिया है:

कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों के नाम	बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	मांग सूचना की तारीख को कुल बकाया राशि (रु. में)	कब्जे की तारीख
गीता देवी पत्नी बिहारी	प्लॉट नं 27 श्री राम तिवार दसरी स्कीम संभरिया रोड कनोटा जयपुर	22.08.2021	4,55,744	27.10.2021

